High cotton prices to hit apparel stocks: Analysts

Recommend holding on to shares of firms with steady inventories in the long run

xtreme weather conditions, coupled with lower crop yield, have triggered a sharp rise in cotton prices. So far, in the month of August, the prices of this commodity have surged over 11 per cent to 850,600 per bale from 445,270 earlier.

Domestic spinning mills have either trimmed production or have started to use existing inventories to meet domestic demand. This is due to higher yarm prices, pest infestation and excessive rainfall patterns. The highest cotton-producing states

terns. The highest cotton-producing states like Gujarat, Tamil Nadu, Andhra Pradesh

ierns. The highest cotton-producing states like Gujarat, Tamil Nadu, Andrha Pradesh and Maharashtra have lowered or cassed their production due to low demand and elevated commodity inflation.

While this may put margin pressure on textile companies in the near term, the ones with steady inventories may benefit from this crisis in the long run, believe analysts. They suggest investors stay cautious on cotton-yarn players and apparel makers if the prices of natural fibre continue to remain in the upward trajectory in the near term. Within the textiles industry, the cotton-yarn manufacturers will face the worst manufacturers will face the worst manufacturers will continue to the profutability. Cloth-sellers, too, shall remain under pressure.

However, garment manufacturers would be able to pass on the price rise to apparel makers. Hence, we recommend that investors hold stocks of garment manufacturers or exporters like FPR Mills, Gokaldas Exports, and SKF India, "said beepak Jasani, head of research, HDFC Securities.

At the bourses, shares of textile stocks

At the bourses, shares of textile stocks like KPR Mills, Welspun India and Vardhman Textiles have tumbled up to 45 per cent so far in calendar year 2022.



(as on Aug 26)	CMP(₹)	Change YTD (%)
Swan Energy	202.8	38.6
Garware Technical Fibres	3,320.4	4.5
Grasim Industries	1,675.4	3.6
Sheela Foam	2,951.1	-8.5
Alok Industries	20.0	-22.3
TCNS Clothing	579.5	-25.8
Vardhman Textiles	335.7	-27.3
Trident/India	37.0	-30.6
Welspun India	78.0	-46.4
LUX Industries	1,767.5	-52.0
Sensex	58,833.9	1.0

Meanwhile, shares of SKF India, Raymond and Greaves Cotton have surged up to 53 per cent, ACE Equity data shows. In comparison, frontline indices Nifty50 and the Sensex climbed over 0.8 per cent

and the Sensex climbed over 0.8 per cent each.
Globally, most countries have been hit by an acute cotton production due to dry spells and intense heat waves.

The drought has not spared the US—the world's largest exporter of cotton. Industry experts settinate production to plummet to 28 per cent, the lowest seen since 2010. Other countries like China, Brazil and Australia, too, remain vulnerable.

Despite the huge cotton shortage across the country, analysts believe India Stands to storm through the crisis once prices ease.

Vinit Bolinijar, head of research, Ventura Securities, is bullish on the long-term prospects of companies with steady inventory like KPR Mills and Vardhman Textlies.

Moreover, the finance ministry extended the exemption of Customs duty on raw cotton imports till October 31 as domestic production takes a hit.

The exemption from duty would benefit the textile chain — yarn, fabric, garments and made-ups and provide relief to consumers.

Against this backdrop, though minimal meaningful recovery is anticipated for the textiles sector in the near-term due to elevated prices, the long-term bet looks profitable, believe analysts. profitable, believe analysts

Gaurang Shah, investment strategist at Geojit Financial Services, expects value buying to emerge after a fall in the prices of

Duying or interest the cotton prices in the past, we remain optimistic on the textiles sector in the long haul as well. Hence, we recommend that investors hold on to companies like Vardhman Textiles and Raymond," he added.

Sequoia cuts holding to 4.4%

latory filing by the online food

October 14, 2021, and another 2.12

37.59 crore shares carrying 4.4 per crore shares in the open market delivery platform. Sequoia Capital had led a 6.41 Sequoia Capital had held a 6.41 between June 27 to August Jomato shares declined by 0.81 per cent stake in Zomato between June 27 to August Jomato shares declined by 0.81 per cent stake in Zomato between June 27 to August Jomato shares declined by 0.81 per cent to trade at 66.1.55 in after 18 per cent to trade at 66.1.55 in after 18 per cent to trade at 66.1.55 in after 18 per cent to trade at 66.1.55 in after 18 per cent to trade at 66.1.55 in after 18 per cent to trade at 66.1.55 in after 18 per cent 18 per cent to trade at 66.1.55 in after 18 per cent 18 per cent

KICL KOTHARI INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED

CIN No. L24110TN1970PLC005865

Regd. Office: 'Kothari Buildings'114, Mahatma Gandhi Salai, Nungambakkam, Chennai – 600 034

Website: www.kotharis.in, Phone No: 044-28334565 Email id: enquiries@kotharis.in

Regd. Office: Kröhen Buldings 114, Mahaham Sandhi Salai, Nungambakkam, Chennai – 000 034 Websites: www.kolathasia, in Prone No. 044-2834565 Email list-natines@kothanis in NOTICE
is hereby given that the SZnd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at 11.00 a.m. on Tuesday, 27th September, 2672 through video conferencing (Other Audio-Yasual Means (VCOORMIC) Perusarant to Circuiss soused by the Mistory of Corporate Affairs (MCA Circuistry) and Circuiss soused by the Mistory of Corporate Affairs (MCA Circuistry) and Circuiss soused by the Mistory of Corporate Affairs (MCA Circuistry) and Circuiss soused by the Mistory of Corporate Affairs (MCA Circuistry) and Circuiss soused by the Mistory of Corporate Affairs (MCA Circuistry), and Circuistry of the Act of

Limiting inflows via SIPs helps fund managers stick to quality

Massive investments force them to buy at high valuations

SARBAIFFT K SEN

WhiteOak Capital Mutual Fund's new fund offer (NFO)—Whiteoak Capital Mid-cap Fund—has an capital Mid-cap rund—nas an interesting feature. The fund house has said it will accept money into the fund only via the systematic investment plan (SIP) route after the NFO closes.

Ocloses. This is perhaps the first time a d house has chosen to restrict fund inflows into a scheme only through the SIP route from the beginning. There are other funds that have done so earlier. But they had done it as a course correction measure, in response to market conditions," says Arun Kumar, head of research, FundsIndia.

Controlling inflows

Mirae Asset Emerging Bluechip Mirae Asset Emerging Bluechip
Flund also restricts investments to a
monthly SIP of ₹2,500 per
permanent account number (PAN).
SBI Small Cap Fund has capped
the monthly intake through SIP at
₹25,000 only.
DSP Small-Cap Fund had
tenped in Glober University in the company of the company.

stopped inflows altogether in February 2017, then reopened it via the SIP/STP route in September 2018, and finally began

2018, and many oggan accepting lump sum investments in March 2020. Franklin Templeton AMC had announced it would accept money in its international funds through existing SIP, STP and transfer of IDCW (income distribution aum conital). distribution cum capital

distribution cum capital withdrawal) only. According to experts, fund houses impose such restrictions to control inflows. "This helps the fund manager to choose stocks based on quality instead of cash availability," says S Sridharan, founder & principal officer, Wealth Ladder Direct.

Fund houses are often accused of

Fund houses are often accused o indulging in indiscriminate AUM gathering. Stopping or limiting inflows into a fund is an investor

WILL SIP OR LUMP-SUM OUTPERFORM THERE'S NO PATTERN

		Kotak Emerging					
Scheme	Opportunities	Equity Scheme	Axis Midcap				
AUM (₹cr) (Jul '22)	32,451.5	20,619.1	18,676.6				
RETURNS (%)	RETURNS (%)						
1-yearSIP	10.4	9.4	1.1				
1-year lump sum	15.3	13.6	5.3				
3-year SIP	27.7	29.6	22.8				
3-year lump sum	25.9	29.1	25.4				
5-year SIP	18.5	21.2	19.5				
5-year lump sum	13.1	15.9	17.7				
10-year SIP	17.5	19.7	18.4				
10-year lump sum	19.3	20.7	19.9				
Source: Morningstar	AVS						

friendly measure. When a category friendly measure. When a category is red hot, and past returns appear strong, a flood of new money pours into the best-performing funds. In a segment like small-cap, the number quality stocks (with adequate liquidity) tends to be limited. An excess of inflows also forces the fund manager to deploy money at high valuations. Doing so can affect future performance negatively.

Growing SIP cult

YOUR

MONEY

Growing SIP cuit
SIP, essentially an arrangement for investing at regular intervals, has emerged as the preferred mode of investing by retail investors in equity mutual funds. According to the Association of Mutual Funds in India (AMEI), investments through the SIP book stood at 712,140 crore

in July.

In recent years, fund
houses have promoted SIF investing vigorously.
Financial planners, too,
encourage their clients to
stagger their investments
Inculcates discipline
The SIP route suits

OUR The SIP route suits The SIP route suits the state of markets are down (as was witnessed in the latest October to June correction). Purchase of units at low valuations provides a kicker to long-

This disciplined approach This disciplined approach reduces timing risk. This is especially true in the case of the more volatile small- and mid-cap funds. Investors who invest in lump sum tend to do so when these categories are doing well (at high valuations). And they get scared into not investing when these categories are in the doldrums, producing suboptimal returns.

What should you do?

what should you do?
Don't compare lump sum returns
for a certain period with SIP returns
and try to arrive at a conclusion
regarding which approach is better.
If at the start of the period (for
which you are making the
comparison), the markets were at a
low, and though a thread of

low, and they are at a high at the end of that period, returns from the lump-sum method are likely to

tomp-summentudate inkely to look better. The gain from SIP investing is primarily behavioural. A regular SIP doesn't pinch. Investors also don't get affected by market conditions and are gradually able to build a

and are gradually able to build a large corpus.
Fund houses may not restrict inflows in all equity schemes to the SIP mode only. "Restricting inflows through SIPs is a fund house call. Investors have the opion to invest both via SIP and lump-sum in most schemes," says Kumar.
They should use the SIP mode Ingreterm wealth building. They

They should use the St.P mode to long-term wealth building. They may, in addition, invest via the lump-sum mode when the markets are down, to provide a tactical boost to their portfolios.

Zomato Sicagen India Limited Sicagen

PUBLIC NOTICE TO SHAREHOLDERS

TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)

INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEF)

Notice is heavy given pursuant to Rule of investor Education and Proculator Func
Authority Accounting, Audit, Transfer and Refund Rules, 2016 (the "Rules") that it,
Authority Accounting, Audit, Transfer and Refund Rules, 2016 (the "Rules") that it,
accordance with Section 124(of) ethe Companies Act, 2013, the shales in rapsect of
which, didn'ed has not been paid or claimed for seven consecutive years or more shall
be transferred by the Company to Invested Education and Proclaim Fund (IEF)
Accordingly, the Company processes to transfer to IEFP authority, the equity shares in
Paccellorably that Company to Invested the Interference of the Interference of the Interference in the Interference of Interference in Inte

accordance with the said Rules, the Company has uploaded compiete details hareholders and shares due for transfer to the IEPF authority on its rvws.sicagen.com for shareholders reference.

www.siagen.com for shareholders reference.
Shareholders who have not claimed their dividends for the last seven consecutive years are requested to automit their claims by writing to the Company or its registerian and Share response to the control of the control of the control of their control of their

Venture capital firm Sequoia
Capital has reduced its holding in BSE by Zomato, Sequoia Capital shares between June 27, 2022, to dod-delivery start-up Zomato in India (SCI) Growth Investment August 25, 2022, it addied. hold-open market, according to a region from September 6 to in Comato Dascome down to in the period from September 6 to in Toomato Dascome down to

मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. (म.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण) (म.प्र. शासन का उपक्रम)

45-ए. अरेरा हिल्स. भोपाल-462011. फोन नं. : 0755-2597290/2765205 2643, वेबसाइट : mprdc.gov.in, CIN : U45203MP2004SGC01675

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम में परामर्शी के पद पर नियुक्ति

क. 9390/पपीजारविंगि/856-स्वा/2022 भोपाल, दिनांक : 26.08.2022 मध्यप्रदेश सहक विकास निरम, राज्य आतन का एक प्रतिष्टित उपक्रम है जो प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गी, राज्य राजमार्गी, एम. इति अति के कि निर्माण पूर्व कंचारण होते कि कि निर्माण कंवारीत बाब वित्त पीयित परियोजनाओं के सेवालन हेतु परामर्थीं की सेवार्य मध्यप्रदेश शासन, वित विभाग द्वारा योज कि निर्माण परियोजनाओं के सेवालन हेतु परामर्थीं की सेवार्य मध्यप्रदेश शासन, वित विभाग द्वारा योज होते कि उपक्रमार्थीं की सेवार्य मध्यप्रदेश शासन, वित विभाग द्वारा योज सिनांक ठ अक्टूबर, 2012 एवं क. एक 11-10-2022-निरमा-वार भोपाल, दिनांक 24 मई, 2022 अनुसार लिये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

痳.	पदनाम	पदों की संख्या	अर्हता	वेतनमान
1	परामर्शी	01	 मारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्हें न्यूनतम 20 वर्षों का अनुभव हो, विशेष रूप से वन संरक्षण, विकास, प्रशिक्षण, सड़क के किनारे वृक्षारोपण और सामुदायिक वानिकी के क्षेत्र में। 	वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्र. एफ 11-10/2012/निवम/बार भोपाल, दिनांक 06 अक्टूबर, 2012 एवं दिनांक 24 मई, 2022 अनुसार मानदेव श्रेणी-11 में रु. 7.50 लाख प्रतिवर्ष देव होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई पारिश्रमिक/परिलाभ देव नहीं होगा।

कार्य की अवधि एक वर्ष के लिये होगी।

कार का अवस्थ एक पर मुण्टित साक्षास्त्रकार के माध्यम से होगा। सेवानिवृत्ति के पूर्व के पांच वर्षों के गोपनीय चरित्रावली प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 30.09.2022** है। आवेदन पत्र का प्रारूप मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की

वेबसाइट www.mprdc.gov.in पर उपलब्ध है।

LA OPALA RG LIMITED

Place: Chennai
Date: 26.08.2022 By order of the Board Anil Kumar Padhial
For Kothari Industrial Corporation Limited Company Secretary cum Compilano

CIN: L28101WB1987PLC042512

Regd. Office: Eco Centre, 8th Floor, EM - 4, Sector - V, Kolkata - 700091

Phone No. +91 76040 88814/5/6/7, Email: info@laopala.in, www.laopala.i

NOTICE (For the attention of Equity Shareholders)

Notice is hereby given that the Thirty Fifth (35th) Annual General Meeting (AGIA) of the Company will be held on Thursday September 25, 2022, at 3:00 PM, (IST) through Video Conferencing (VIC) (AVM Mode in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rule framed thereunder and the Securities and Exchange Board of India (SEBI LOOR Regulations, 2015, (Listing Regulations).

LOCK Negulations, 2015, (Listing Regulations).

Pursuant to the Minary of Corporate Military (INCA) General Circular No. 14/2020 dated 8th April. 2023, Circular No. 17/2020 dated 3th April. 2020, Circular No. 17/2020 dated 3th April. 2020, Circular No. 20/2020 dated 3th Manuary, 2021, Circular No. 20/2020 dated 3th Manuary, 2021, Circular No. 19/2021 dated 3th January, 2021 of Circular No. 20/2020 dated 3th Manuary, 2021, Circular No. 19/2021 dated 3th January, 2021 and Circular No. 20/2022 dated 5th May, 2022, Collectively referred to as INCA Circulars) with SEBI Circular Nos. SEBIH-0CIPC/DNCD/19/2020 dated 4th May, 2022, Collectively referred to as INCA Circulars) with SEBI Circular Nos. SEBIH-0CIPC/DNCD/19/2020 dated 4th May, 2022, Collectively referred to as INCA Circulars) with SEBI Circular Nos. SEBIH-0CIPC/DNCD/19/2020 dated 4th May, 2022, Essaed by the Securities and Exchange Board of India (SEBI Circulars) the Notice of the SEBI Annual Cancer Medicing along with Ammar Report for the Financiar Verai Zeitz-2 with the Company / Registrar and Share Transfer Agent (RTA) / Demosclov-Particinary.

In order to receive Annual Reports, notices and other communications / benefits in electronic form, we request the shareholdes of Mis La Opala RC Limited (The Company') who have not yet registered their email address or bank account details, to register has sense with their respective Depository Perdigionals (OPs) in case shares are held in Demail mode and with the Company's RTA Mis Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd., in case shares are held in Physical mode.

with the company's YAL was Nationerwate full attributes a PLL bit. Includes late the rule of Inglished Hoods. Members are requested to notify immediately the change of their name, postal address, email address, mobile number PAN. Nomination and bank particulars to their DP if the shares are held by them in electronic form and to the R & T Agent of the Company is, Almeshavoin Datamatics PLL Liff shares are held in physical form, as available on weakele or RTAA https://impcl.inform. in prescribed Form ISR-1 and other forms pursuant to SEBI Crouter No. SEBI-MC NURSDIMIRESD TRAINED PLEY CRUST AND ADDRESS AND ADDRE

Personant to the changes introduced by the Finance Ad. 2020 in the income-say Ad. 5th Fock (Koklas 700.001.

Personant to the changes introduced by the Finance Ad. 2020 in the income-say Ad. 5961 (the IT Ad.) w.c.l. April 1, 2020. The deviced past or distributed by a company shall be lazable in the hands of the shareholders Accordingly, in complaince of the changes of the change

Pursuant to Section 91 of the Companies Act. 2013 and Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules I section 91 of the Companies Act. 2013 and Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules of 14 dia semended area with Regulation 42 of the SEBIL (DOR) Regulations, 2013 is a amended, the Regulater of members & Share Transfer Regulater of the Company shall remain closed from Friday, September 23, 2022 the control of the Company shall remain closed from Friday, September 23, 2022 the control of the September 24, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend, if approved at the AGM.

The Notice of the 35th Annual General Meeting and Annual Report shall be available on the website of the Company waw.loopslain and on the website of the of the Siock Exchanges where the shares of the Company are listed viz.

www.besindia.com, www.nestridia.com and www.sel-india.com.

Date: August 26, 2022 Place: Kolkata

R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

Corporate Identify Number: L74899DL1993PLC053579]
[Corporate Office: GF1-A, 6, Devika Dever, Netror Place, New Delh-110019
Corporate Office: C-64, Sector 59, NOIDA, Dist. Gautam Bush Magar, U.P., India - 201 307
Til: -91 120 4303500;
Website: www.rsystems.com Email: rail: girgsplatms.com

For Transfer of equity shares to the Demat Account of Investor Education and Prot

In terms of Requirements of Section 124 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority

Authority (Accounting, Auth, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the "Pulses"), in Company is mandade to transfer such shares in respect of which the dividend has remained unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years to the Demat account (IEFP Account') as opened by the investor Education and Protection Fund Authority (IEFP Action). It is noticed from the records that certain shareholders of the Company have not encashed their dividends for seven consecutive years since the declaration of 3°f Interim Dividend 2015 for the financial year ended December 31, 2015 and ormatids.

interfuls. or compliance with the said Pules, the Company has sent the individual notice to all the concerned shareholders whose phases are liable to be transferred to IEFF Account for taking appropriate action and submitting requisite documents to claim the unclaimed dividend amount(s). A list of such shareholders, who have not encashed their dividends for seven consecutive years and whose shares are therefore liable for fransfer to the IEFF Account, is available on the website of the Company at https://www.rsystems.com/investors-info/unpaid-and-unclaimed-dividend

The Shareholders are requested to refer to the above web-link to verify the details of unencashed dividends and the shares failed to be transferred to the IEPF Account. Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the thates transferred to the IEPF rufu (IEP Account including all benefits according on such shares, if any can be claimed sack by them from IEPF Authority after following the procedure as prescribed in Rules.

n case of non-secipt of valid claim by the shareholder for the 3st Interim Dividend 2015 by November 28, 2022 at an one of the below mentioned addresses, the Company shall, in compliance with the requirement of the Rules, transfer the add shares to IEPF account without any further notice.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferre to IEPF Account pursuant to the said rules. n case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact the Registrar and Share Tran Agent/ Company at the following address:

Link Intime India Pvt. Ltd,
Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1, Block LSC,
Near Savirti Market, Janakpuri, New Delhi - 110058
Tel: +91 11 4141 0592, Fax: +91 11 4141 0591
Email: delhi@linkintime.co.in

Date: August 26, 2022 Place: Noida (U.P.)

R Systems International Limited C-40, Sector-59, NOIDA-201307 Tel:+91-120-4303500 Email: investors@rsystems.com

For R Systems International Limite Bhasker Dubey (Company Secretary & Compliance Officer)

RENAISSANCE GLOBAL LIMITED

CIN. L38911MH1989FL0254498

Regd. Office: Piot No. 36 A. 837. Seepz. Andreit (E.) Mumbai - 400096

Toi: 022-4055 1200 | Fax: 022-2829 2146

Web: www.ensissenogoldoi.com/ Emistli investors/genesissenogoldoi.com/

When we want to the work of Early (1994) and the Section 2004 (1994) and the Section 2

Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) Mis. Link Intelle india Part. Lit.
The list of such shareholders with hiere or de creased included intelled their dividends for last.

The list of such shareholders with hiere or de creased included intelled their dividends for last.

Bental account of skipping of on weither of the Company year creases compatible. Journal count of skipping of one wheir the processor of reseight or which divide documents claims from the concerned shareholderist job in the damen more in the communication. The Company would be initiating the process of transferring said shares to IEFF Demait account, without any further notice; in accordance with the said folkers from these shares are transferred by the Company to IEFF, no dain shall it leaguiset the Company or RTA. However, the Shareholders may dismiss or shares by making an application to IEFF. Authority in Form IEFF-sap prescribed under the IEFF Ruiss. The said form is available on the IEFF whether is a way application. For any other information in 'damental claims and contribution's may be a subject to the Company to IEFF and the processor of the IEFF Ruiss. The said form is available on the IEFF whether is a way application. For any other information in 'damental claims as made to concerned shareholders may written be Company in Irrestrating Termanssencegolders. One content out RTA Mas. Link.

the Company at investors@renaissanceglobal.com or contact our RTA Ms. Lin dia Pvt. Ltd., C-101, 247 Park, LB S Marg, Vikinoli (West), Mumbai - 400083 (022)49186270, e-mail: jepf.shares@inkintime.co.in.

CS Vishal Dhokar Company Secretary & Compliance Officer Place: Mumbai Date: August 26, 2022

15.6 फीसदी रह सकती है वृद्धि दर

त्त मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 15.6 प्रतिशत रहेगी। अप्रैल-जून तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े अगले सप्ताह आने को हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड को मिली जानकारी के मुताबिक उसके पहले वित्त मंत्रालय ने यह अनुमान लगाया है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 23 की अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी में वृद्धि 16.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जीडीपी

एक वारख आधकारा न कहा कि जाडापा से जुड़े ज्यादातर घटकों जैसे निजी अंतिम खपत व्यय (पीएफसीई), सकल नियत पूंजी सुजन (जीएफसीएफ) और सरकार के अंतिम खपत (जीएफसीई) में मजबूत सुधार नजर आ रहा है। वहीं जिस के ज्यादा दाम और रुपये में गिरावट की वजह से व्यापार प्रभावित

जा छ। ध्यान में रखना होगा कि वित्त मंत्रालय द्वारा जीडीपी में 15.6 प्रतिशत वृद्धि का लगाया गया अनुमान उसके द्वारा नजर रखे जा रहे उच्च संकेतकों के आधार पर है। यह जरूरी नहीं है कि 31 अगस्त को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी होने वाले अनंतिम आंकडे इसके अनरूप हों।

आकड़ इसक अनुरूप हो। अधिकारी ने कहा, 'जीएफसीई में मापा जाने वाला पूंजीगत निवेश सुधार दिखा सकता है वहीं निज़ी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय बद् रहा है। महंगाई के दबाव के बावजूद निजी खपत में भी सुधार है। वहरहाल भूराजनीतिक स्थिति के कारण व्यापार प्रभावित हुआ है।'



यूक्रेन में रूस के हस्तक्षेप के कारण पैदा हुए गतिरोध का बुरा असर अप्रैल-जून तिमाही पर पड़ा है। इससे आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई और जिंस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। कच्चे तेल का भारतीय बॉस्केट बढ़कर जून की शुरुआत में 118 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया और पूरी तिमाही में औसत कीमत 109.50 डॉलर प्रति बैरल रही है।

बहरहाल व्यापार की स्थिति छोड़ दें तो बहरहाल व्यापार को स्थित छाड़ द ता जीडीपी के अन्य सभी घटक में पिछले साल की तुलना में सुधार आया है। विनिर्माण, निर्माण, खनन, कृषि जैसे सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) वाले क्षेत्रों में बेहतरीन वृद्धि की उम्मीद है। यहां तक कि संपर्क वाले क्षेत्र जैसे आतिथ्य, आराम और पर्यटन जैसे क्षेत्रों की भी वापसी हुई है और महामारी के कारण हुए व्यवधान के दौर में मांग में आई कमी के बाद स्थिति ठीक हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 23 में जीडीपी वृद्धि 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जबकि पहली तिमाही में 16.2 प्रतिशत, दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 6.2 प्रतिशत, तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में 4.1 प्रतिशत और चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में वृद्धि दर 4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। पिछले वित्त वर्ष 2022 की अप्रैल-जून तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 20.1 प्रतिशत थी, क्योंकि वित्त वर्ष 21 में कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन था और इसकी वजह से आधार कम था। वित्त वर्ष 21 की पहली तिमाही में स्वतंत्र

की गई थी। वित्त वर्ष 22 के लिए कुल मिलाक्र वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.7 प्रतिशत थी और जनवरी-मार्च तिमाही में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 4.1 प्रतिशत थी, क्योंकि ओमीकोन लहर के प्रतिबंधों और जिसों के दाम में तेजी के कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थीं।ट्रेड, होटल और

भारत के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज

वित्त मंत्रालय ने जताया अनुमान

■ एनएसओ 31 अगस्त को जारी करेगा जीडीपी के वित्त वर्ष 23 के अप्रैल–जून तिमाही के आंकडे

- रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 23 की पहली तिमाही में जीडीपी में 16.2 प्रतिशत वृद्धि का लगाया है अनुमान
- करीब सभी सकल घरेलू उत्पाद घटकों ने दिखाई मजबूत वृद्धि

कम्युनिकेशन सेवाओं को छोड़कर वित्त वर्ष 22 में सभी क्षेत्रों की वृद्धि दर वित्त वर्ष 20 के स्तर से ऊपर रही है। निजी अंतिम खपत व्यय की वृद्धि या निजी खपत चौथी तिमाही में घटकर 1.8 प्रतिशत थी, जो कमजोर कड़ी है। सरकार का व्यय बढ़ा है और यह 4 8 प्रतिशत रहा, जिससे कुल मिलाकर वृद्धि को समर्थन मिला। सकल नियत पूंजी सुजन, जो अर्थव्यवस्था में निवेश मांग को दिखाता है, 4.8 प्रतिशत बढ़ा है। सकल नियत पूंजी सुजन, जो अर्थव्यवस्था में निवेश की मांग को

दिखाता है, 5.1 प्रतिशत रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष की एक हाल की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 23 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में वृद्धि करीब 15.7 प्रतिशत रहने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ संकेतकों ने बेहतरीन प्रगति दिखाई है।

सवाल जवाब

जमा दरों में अभी और बढ़ोतरी की गुंजाइश

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा का मानना है कि इस वित्त वर्ष में ब्याज दरें सामान्य होने से मार्जिन में सुधार हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य कार्याधिकारी व प्रबंध निदेशक सजीव चड्डा ने मनोजित साहा के साथ बातचीत में कहा कि क्रेडिट लागत में कमी जारी रहेगी, जिससे लाभप्रदता में सुधार होगा। संपादित अश

बीओबी ने पहली तिमाही में वैश्विक अग्रिम में 18 फीसदी की वृद्धि हासिल की है, उद्योग से अधिक। क्या दूसरी तिमाही में भी यही स्थिति जारी रहेगी?

हम विकास के रज़ान में मजबूती देख रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार बेहतर वृद्धि हो सकती है। हालांकि यह याद रखना भी जरूरी है कि महामारी की दसरी लहर के कारण पिछले वर्ष की पहली तिमाही सुस्त रही थी। जहां तक विकास का संबंध है हम कुछ नरमी देख सकते हैं। हां, यह पिछले साल की तुलना में बेहतर होगा।

कॉरपोरेट ऋण की मांग में भी सुधार हुआ है। क्या आपने नई परियोजनाओं के लिए मांग देखी है ? पिछले कुछ वर्षों में, उद्योग में समेकन की प्रवृत्ति

रही है। मजबत खिलाडियों के बीच क्षमता मजबत हो रही है। मजबूत खिलाड़ियों की ओर से निवेश की काफी मांग आ रही है। मांग है पर यह अभी कम



है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं क्षमता उपयोग में सुधार होता है, मांग का एक बड़ा हिस्सा इन क्षेत्रों से भी आएगा। यह ऋण की गुणवत्ता के लिए शुभ संकेत है। जहां तक खुदरा ऋण की बात है, असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण में अच्छी वृद्धि देखी गई है। मोटे तौर पर हमने देखा है कि खदरा ऋणों में कॉरपोरेट ऋण की तुलना में अधिक तेज वृद्धि है। यह प्रवृत्ति बनी रहेगी।

बीओबी ने हाल में 6 फीसदी जमा दर की पेशकश करते हुए तिरंगा जमा योजना की घोषणा की। आपको लगता है कि इससे जमा दर में वृद्धि होगी या यही शीर्ष है? तरलता अधिशेष के कारण दरें वास्तिवक रूप से नकारात्मक थीं।यह ऐसी स्थिति नहीं थीं जो अनि-श्चितकाल तक जारी रह सकती थीं, या जारी रहनी चाहिए थी। इसमें सुधार होगा और दरें बढ़ेंगी। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे दरें बढ़ने की भी गंजाइश रहेगी। यह अर्थव्यवस्था और बैंकिंग के लिए अच्छा होगा।

महंगाई दर में स्थाई गिरावट को लेकर आश्वस्त नहीं :पात्र

अप्रैल में 7.8 प्रतिशत की तुलना में प्रमुख खुदरा महंगाई दर घटती नजर आरही है, वहीं केंद्रीय बैंक उपभोक्ता मूल्य में टिकाऊ कमी पर आश्वस्त होने को लेकर अभी और आंकड़ों का

इंतजार कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्र ने कहा, 'जिंसों के अंतरराष्ट्रीय दाम में कछ कमी आई है और आपूर्ति श्रृंखला का दबाव घटा है। वैश्विक और घरेलू दोनों स्तर पर यह सकारात्मक प्रगति है। वहीं महंगाई ऊपर जाने का जोखिम भी बना हुआ है, क्योंकि इनपुट लागत महंगा होने का असर पड़ने को लेकर दबाव है। पात्र ने 24 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित सार्कफाइनैंस सेमीनार को संबोधित करते हुए यह कहा।

एक चैनल के साथ साक्षात्कार में 23 अगस्त को रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक के आकलन के मुताबिक महंगाई दर चरम पर पहुंच चुकी है और अब आगे इसमें कमी आने की संभावना

है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। रिजर्व बैंक कवायद कर रहा है कि महंगाईं दर 2 से 6 प्रतिशत की सीमा के भीतर रहे, जिसमें 4 प्रतिशत महंगाई रखने का मध्यावधि लक्ष्य तय किया गया है।

जुलाई में सीपीआई महंगाई 6.7 प्रतिशत थी।पिछले 4 महीने में पहली प्रतिस्ता वागाध्यत माराज मंत्रकता बार ऐसा हुआ, जब महंगाई दर 7 प्रतिशत के नीचे आई है। पात्रा के मुताबिक कम अवधि के हिसाब से महंगाई का अनुमान वैश्वक पुराजनीति स्थिति, जिस के अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल और वैश्विक वित्तीय बाजारों में होने वाली प्रगति पर बहुत ज्यादा निर्भर है। पात्रा ने कहा, 'मौजूदा मोड़ पर हमारा अनभव है कि मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाई महंगाई दर के लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रही है।' उन्होंने कहा कि मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता का एक पहलू प्रतिक्रिया देने का वक्त है। मौद्रिक नीति की प्रतिक्रिया में देरी होने से

विश्वनीयता में और कमी आएगी और महंगाई दर की उम्मीदें पीछे छूट जाएंगी। साथ ही ज्यादा महंगाई के साथ वृद्धि दर को भी कुर्बान करना

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने मई के बाद से कुल मिलाकर रीपो रेट में 140 आधार अंक की बढ़ोतरी की है. नीतिगत दर महामारी के दौरान 4 प्रतिशत के रिकॉर्ड निचले स्तर पर थी, जो इस समय 5.40 प्रतिशत है। फरवरी के आखिर में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद भारत की महंगाई दर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई, क्योंकि इस टकराव के कारण जिसों के वैश्विक दाम में तेजी आई है। अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी से डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट आई और इससे महंगाई का दबाव बढ़ा। आयात प्रमख रूप से डॉलर में होता है और डॉलर मजबूत होने से आयात महंगा हो गया। 2022 में अब तक घरेलू मुद्रा में करीब 7 प्रतिशत गिरावट आई है। 19 जुलाई को डॉलर के मुकाबले रुपया 80.06 पर पहुंच गया था, जो प्रेतिहासिक निचला स्तर था।

2032 तक 2 करोड नर्ड नौकरियां

एक नई शोध रिपोर्ट में अनमान जताया गया है कि भारत अगर शुद्ध रूप से शन्य कार्बन उत्सर्जन के लहेय को 2050 तक ही हासिल करने की पहल करता है तो उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वर्ष 2032 तक 7.3 प्रतिशत (470 अरब अमेरिकी डालर) की वृद्धि हो सकती है और लगभग 2 करोड़ अतिरिक्त रोजगार भी पैदा होंगे। भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। इस क्रम में भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2036 तक जीडीपी की अनुमानित आधारभूत वृद्धि से 4.7 प्रतिशत अधिक हो सकती है। वर्ष 2036 तक भारत की अर्थव्यवस्था का कुल आकार 371 अरब डॉलर हो सकता है।एशिया को शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने संबंधी उच्चस्तरीय आयोग के एक अध्ययन में अनुमान जताया गया।

गोवा बंदरगाहके मुद्रीकरणकी निविदा फिर होगी

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय

गोवा के मुरगांव बंदरगाह की संपत्तियों के मुद्रीकरण के 884 करोड़ रुपये की निविदा को फिर से तैयार कर सकता है। इस मामले से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। इस टेंडर के लिए प्राथमिक तकनीकी दौर में सिर्फ 2 बोलियां मिली हैं, इनमें से एक अदाणी पोर्ट्स ऐंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) की बोली

अपात्र हो सकती है। यह परियोजना केंद्र सरकार की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का हिस्सा है, जिसके तहत 2024-25 तक 6 लाख करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है। इस पाइपलाइन में बंदरगाहों की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत है। शुरुआती योजना के तहत 2024-25 के अंत तक 12,828 करोड़ रुपये मूल्य की 31 कार्गों वर्थ का मुद्रीकरण किया जाना था, वहीं सागरमाला परियोजना के तहत जहाजरानी मंत्रालय ने पहले ही मध्यावधि योजना में 50 से ज्यादा सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी (पीपीपी) परियोजनाएं इसमें शामिल कर दी है। एपीएसईजेड देश की सबसे बड़ी बंदरगाह

परिचालक कंपनी है।इसे 3 बड़े बंदरगाहों के 4 टेंडरो में अपात्रता का सामना करना पड़ा है। 2020 में

विशाखापत्तनम बंदरगाह का एपीएसईजेड की विशेष उद्देश्य इकाई (एसपीवी) का ठेका फोर्स मेजर क्लाज लगाकर रद्द कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि इसमें हुई गतिविधियां विभिन्न पक्षों के नियंत्रण में नहीं थीं। नियम के मुताबिक इस तरह के टिमिनेशन से कंपनी भविष्य के टेंडरों के लिए अपात्र हो जाती है।

मुरगांव बंदरगाह के लिए दूसरा प्रस्ताव जेएसडब्ल्य इन्फ्रास्टक्चर का था। अधिकारियों के मुताबिक बंदरगाह प्राधिकरण ने हाल ही में टेंडर को लेकर मंत्रालय से दिशानिर्देश की मांग की है, क्योंकि अगर एपीएसईजेड अपात्र हो जाती है तो वित्तीय बोली के स्तर पर बोली लगाने वाली केवल एक

पक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'अन्य बोलीकर्ता इस बात से अवगत होगा कि अपात्रता की संभावना है, इससे अकेले बोलीकर्ता के रूप में उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी।' इसलिए मंत्रालय इस टेंडर को फिर से तैयार कर सकती है, जिससे इसकी शर्ते ज्यादा आकर्षक हों और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नए सिरे से बोली आमंत्रित कर सकती है।अधिकारी ने कहा, 'मौजूदा शर्तें पर्याप्त बोलीकर्ता आकर्षित करने के लिए व्यावहारिक नहीं हैं। हम सामान्यतया अपनी पीपीपी परियोजना में 5 से 6 बोलीकर्ता पाते हैं।'बोली लगाने वालों की संख्या ज्यादा होने पर केंद्र सरकार के लिए मुद्रीकरण ज्यादा लाभदायक होगा। सरकारी स्वामित्व वाले मुरगांव बंदरगाह के बर्थ नंबर 8 और 3 बैराज वर्थ के पुनर्विकास के लिए मई 2022 में बोली आमंत्रित की गई थी। 2020 में सरकार द्वारा अनुमानित परियोजना का मूल्य 700 करोड़ रुपये था, वहीं 842 करोड़ रुपये की निविदा जारी की गई। नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) के कंटेनर् बर्थ के पहले के टेंड्र में (अप्रभादा) क कटनर बथ क पहल क टहर म अपात्र करार हिए जाने के मामले को लेकर एपीएसईजेड इस साल जून में उच्चतम न्यायालय चली गई। एपीएसईजेड का शुरुआती अनुरोध जेएपपीटी की निविद्या की प्रक्रिया किन को लेकर था, नहीं बढ़ बंदरमाह प्राधिकरण द्वारा आगे और अपात्र करार देने की स्थिति पर रोक लगाए जाने की उम्मीद कर रही है।

जून 2022 में बंबई उच्च न्यायालय ने जेएनपीटी अपात्रता मामले के खिलाफ आवेदन खारिज कर दिया। एपीएसईजेड ने तर्क दिया था कि उसे नई परियोजनाओं में बोली की अनुमति मिलनी चाहिए क्योंकि अपात्रता की मुख्य वजह विजग बंदरगाह पर कोल ऑपरेटिंग टर्मिनल को निरस्त किया जाना है।जेएन्पीटी के अलावा कांड्ला के दीनदयाल् पोर्ट्र टस्ट और विशाखापत्तनम पोर्ट परियोजना में भी . एपीएसईजेड को अपात्र करार दिया गया है।

आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

आर सिस्टन्स इन्टरनशानल Tollमcs
(ज्ञानकेट पड़ाना संख्या: L74890L1939PL0053579)
(ज्ञानकेट पड़ाना संख्या: L74890L1939PL0053579)
(ज्ञानकेट पड़ाना संख्या: L74890L1930PL0053579)
कारपोरंट कार्यालय : ती-40, संकट 99, नीयका, ज़िला जारील बुद नगर, उज्जय, इन्डिया - 201 307
दुरमा: -19 120 4305500;
वेबसाइट: www.rystems.com ईनेन: :si@nystems.com

शेयरधारकों हेतु सूचना

शिष्पारण अपूर्णा निषेत्रक शिक्षा और संस्थान निषि प्राविकरण के अनिट जाते में इसिबीटी रोपरों के स्थानांतरण के लिए जि अधिनियम, 2013 की धारा 124 साथ में पारित निवेशक शिक्षा और संस्थान कोच प्राविकरण (लेखांकन, लेखा और आसरी) नियमन, 2016 (नियमन) के प्राव्यानों के अतनंत चन शैरारों जिनके लालांच का मुगतान असवा दावा त्यां यांचे ने सही किया नार्य, केन्यानी को परेते शेरारों को निवेशक शिक्षा और संस्थान कोच प्राविकरण (आई ई ' नत्य') द्वारा ओले गये अनिट खाते (आई ई पी एफ खाता) में हस्तांतरित करना है।

कम्पनी के रिकॉर्ड से ज्ञात हुआ है कि कुछ शेयरवारकों द्वारा दिसम्बर 31,2015 को समाप्त वितीय वर्ष के तीसरे अंतरिम लामांष 2015 एवं उपरान्त लामांष लगातार सात वर्षों से नहीं भुनाये गये हैं।

प्रपोक्त नियमन के अनुसार कम्पनी ने ऐसे शेयलायकों, जिनके शेयर आई ई वी एक खाते में हस्तांतरण के योग्य हैं, उन्हें प्रयोक्तमत सुमन मेजी हैं, शाकि उपयुक्त रावा किया जा रहते और लामांग रात्रि के पाये के सिद् आधीव तस्तारेक जान किया को एसे शेयलायका जिसने अपने लामांत लागारा सात्रा वसी में ने स्त्री मुना है हैं एसे एक खाते में सात्रांतरण योग्य हैं, उनकी एक सूची कम्पनी की वैशसाइट <u>lthsol/www.psskems.com/investors-infol/uncaid-and-unclaimed-divisions</u> उपराचका हैं।

र voew s । प्रकारकों से अपूर्ण है कि बेदावा लागांप और शैयर्स, दोनों जो आई ई पी एफ खाते में हस्तातरित होने योग्य हैं, के विशय्प के शख्यान के लिए जरफेला केन-किंक का संदर्भ हैं। श्रीश्याक ब्यान दें कि बेदावा लागांद और शेयर्स दोनों जो आई है पी एफ हाने, आई हैं पी एफ खाते में हस्तातिरित किए गये हैं, इस तरह के शैयर्प पर एकतित सभी लागें सहित, यदि कोई हो, वे मोमां द्वारा निवारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद निसेवाल किता और संख्या कोंग प्रक्रिकल से वास्प तवा किए जा सकते

ह। विस्ताराकों से विशीय वर्ष 2015 के तीसरे अंतरिम लगांग के लिए नवम्बर 28, 2022 तक किसी भी जीधे दिये गये एक पसे पर वैध दात्र के प्राप्त न होने पर कम्बनी उपरोक्त निक्तों के अनुपालन में उपरोक्त शेमारे को बीना किसी पुन. सूचना के आई भी एक खोत स्वातरिक कर कीता कुछ है। पिएक खाते में इस्तारिक को कीता कुछ पा किसी पुन. सूचना के आई भी एक कोष, अपने के स्वातरिक को मां कुछ पा के में इस्तारिक तोने कुछ पा के में इस्तारिक को कीता के अपने के अपने हैं भी एक कोष, आई ई पी एक खाते में इस्तारिक तोने पर प्राप्त कीता किसी की अनुपाल में कम्मी के दिस्तक कोई दाना मी है रोग। अंतरपालक इस विषय में किसी भी पूछताछ के लिए रिविस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, कम्पनी के निम्म पोर पर संपर्क कर

लिंक इनाटाइम इंपिडया प्रावंबेट लिमिटेड नोबत हार्ड्डर, प्रथम मंत्रिक, स्ति नेक एमएम2, सी-१ स्तेंक, एक्एसपी, सार्डिकी मार्डिट के नजरीक, जनकपूरी मई दिल्ली - 110.058 Tel : +91 11.411.0592, Fax -49 11.4141.0591 Email: delhi elinkilime.co.lin

हता०/-भास्कर दुवे (कम्पनी संघिव एवं अनुपालन अधिकारी)


भर्तीम्रीजोंकीदवाइयों पर नहीं लगेगा जीएसटी

तमिलनाडु के अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के एक निर्णय के अनसार अगर आप अस्पताल में भर्ती हैं, तो आपको दवाइयां और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अन्य सामान पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं देना पड़ेगा। प्राधिकरण ने निर्देशित किया है कि दवा और उपभोग वाले वस्तु पर छूट लेने के लिए एक समग्र विपन्न देना होगा। वहीं दूसरी ओर एएआर ने कहा कि

अगर आप बाहरी मरीज हैं और आपको स्वास्थ्य सेवा के लिए दवाइयां और उपभोग के सामान दिए जाते हैं, तो इस पर जीएसटी देना होगा। अलग-अलग दवाइयों के लिए अलग-अलग दर तय की गई है। इस साल 17 जुलाई तक कमरे के कमरे भी जीएसटी मुक्त थे। मगर, जीएसटी परिषद् ने निर्णय लिया कि 18 जुलाई से पांच हजार रुपये से अधिक किराये वाले कमरी पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा। आईसीयू, सीसीयू करमुक्त रहेंगे।

बीएस सूडोकू 4445

परिणाम संख्या 4444



7	1	9	4	2	8	3	6	5
4	8	5	3	6	1	2	9	7
3	6	2	5	7	9	1	8	4
5	2		8		3		1	9
8	3	4	9	1	7	5	2	6
1	9	7	6	5	2	8	4	3
6	4	3	1	8	5	9	7	2
2				9				
9	7	1	2	3	4	6	5	8

कैसे खेलें ? हर रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की

आसान

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

पुरसा सरफा : दिल्ली में सोने का भाव 254 रुपये इससे (१५०स काराबार सत्र म साना 32,285 रुपये प्रति १० प्राम पर बंद हुआ बा। चाँछी 21 रुपये की तेजी के साथ 55,979 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुँच गई। यह पिछले कारोबारी सत्र में 55,958 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

सन्न म 55,958 रुगय प्राता किरवाशाम था।
लाखनक
गेह्रं दद्या 2300/2310, गेह्र् रुगस्त्रो
3350/3600, चावल सरस्त्रती सेला
5300/5500, स्टीम 6000/6100,
लालगर्नी 6200/6300, चावल (सीना)
4600/4800, वाल अरहर सन्ता नं.
9400/9500, पटका 10500/106000, 9400/9500, पटका 10500/10600, र्लेक्शन 7000/7200, चना देशी छना 57800/5900, चना देशी छना 58800/5900, चना देशी उज्जाकी प्राथम छना देशी 5400/5600, उद्दर्ध साबुत (काला) 9900/10000, दोल उद्दर (काला) 9500/9500, उद्धर सोबा किरानाः जीरा 23800/26100, लालमिर्च गुट्टर 22500/31000, हल्दी निजाम फली (50 किला) 5000/5200, धंनिवा एमपी 12200/13600, छोटी इलायची (किला) 850/1500, जड़ी इलायची (किला) 850/1500, जड़ी इलायची (किला) (किला) 470/520, सीफ मोटी 16200/18500, मंगरिल 16200/18500, मगरल 15500/16500, चिरौँजी (किलो) 1100/1200, मखाना 400/575

1100/1200, শভালা 400/5/5 মানুবাৰ 400/4/5 মানুবাৰ 4500/5/5 মানুবাৰ

राजस्थान

सार्थ अस्तर प्रदर्श ।

असर्व (3500/1500, मृत्य (3500/1500, मृत्य (3500/1500, मृत्य (3500/1500), मृत्य (3500/1500), स्तर्य (3200/1500), स्तर्य (3200/1500), स्तर्य (3200/1500), स्तर्य (3500/1500), स्तर्य (3500), स्तर्य (3500), स्तर्य (3500), स्तर्य (3500), स्तर्य (3500), स्तर्य (3500), स्तर्य (3500/1500), स्तर्य (3500/1500),

(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1157. बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1135, फ्लैक 1097 डीएमओ 903, टरपीन लैस बोल्ड 1155

क्रस्टल (14-1)133, अपने 1047, विकास 1047, विभावन 1047, व

25000/34000, कालीमिर्च (किलो) 560/650, धनिया 12300/14000, जीर 560/650, ঘদিরা 12300/14000, রুগাঁর 124800/2500, জলবায়ন14000/25000, মীদা 15000/23000, মীঘা 6300/6500, মিঘা মাদা মুখান মুখান বিজ্ঞান বিজ্ঞা 2000/2300,

2000/2450, खन्ना प्रांति विदे : यहसत्राना प्रांति विदे : यहसत्राना प्रांति विदे : यहसत्राना प्रांति विदे : यहसत्राना (अवाश) (195 वर्षाय) (195 वर्य)

डिस्क्लेमर. बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकृषित समावार रिपोर्ट और फीक्ट लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉरपोरेट जमत और सरकार से जड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रवास किया जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थतियों के कारण वास्त्रविक घटनाकम भिन्न हो सकते हैं। समावार पत्र में फ्रक्शिशत रिपोर्टों के आधार पर पाठकों इसर किए जाने ाल निवार और तिल जाने वाले करनेकारी निर्मायों के लिए किक्नेस स्टैंटर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेला है। पाठकों से स्वयं निर्माय लेने को अधेका की जाती है। किलानेस स्टैंटर्ड ने के सभी विद्यापन सद्भाव में स्वीकर किए जाते हैं। इनके सब्ध बिकानेस स्टैंटर्ड न वो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विद्यापनी से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विद्यापनादाता से ही किया जाना चाहिए। मैं, विव्तनेस स्टैंडर्ड प्र. ति. का सर्वाधिकार स्तरिबत है विव्वनेस स्टैंडर्ड प्र. ति. से लिखित अनुनित लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषद्ध है। किसी भी व्यवित्त या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषद्ध कार्व किए जाने पर दीवानी और फौजवारी कार्यवाही शरू को जाएगी।